

आपने किसी की तारीफ की है? या किसी ने हाल ही में आपकी तारीफ की है? उस समय आपने कौनसे शब्दों को use किया था? सुन्दर, लम्बा, बड़ा इत्यादि। इन सभी शब्दों से आपने किसी की विशेषता बताई है। बस यही है विशेषण जिसे English में **Adjectives** कहा जाता है।

वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या फिर संज्ञा या सर्वनाम की अतिरिक्त विशेषता के बारे में बताता है, उसे विशेषण **Adjective** कहते हैं।

(Adjective is a term that describes the characteristic of a noun or pronoun, or refers to the extra specialty of the noun or pronoun, it is called adjective.) जैसे -

Dress is beautiful (ड्रेस सुंदर है।)

I like that dress. (मुझे वह ड्रेस पसंद है।)

The basket has some chocolates. (बास्केट में कुछ चॉकलेट्स हैं।)

ऊपर दिए गए तीन वाक्यों में **beautiful, that** और **some adjectives** हैं।

सोच रहे होंगे कि **beautiful** तो ठीक है पर **that** और **some** कैसे जबकि **last classes** में हमने पढ़ा था कि **that pronoun** है और **some** एक **quantifier**. उस समय एक बात और ध्यान में रखने के लिए बोला था कि वाक्य में इनका प्रयोग किस तरह हुआ है, उसके आधार पर इनका **role decide** होता है। अब यहाँ दूसरे वाक्य में देखिये -

I like that dress. - इस वाक्य में **that** का उपयोग कौन सी **dress** पसंद है यह बताने के लिये किया गया है।

इसलिए यह **Demonstrative Adjective** है।

अब तीसरे वाक्य को देखिए -

The basket has some chocolates. (यहाँ पर **some** से **noun chocolates** कितने हैं, इस बात का पता चलता है इसलिए यह **Adjective of Quantity** है।

तो अब आपका यह **confusion** दूर हो गया होगा और मुझे उम्मीद है कि अब आप **exams** में **adjectives** पहचानने में गलती नहीं करेंगे।

Adjectives के बारे में detail में जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों है -

Adjectives (विशेषण) हमारे वाक्य को और भी प्रभावशाली बना देता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि **adjectives** कुछ **important** जानकारी को जोड़ का हमारे वाक्य में एक नई जान फूंक देते हैं। इतना ही नहीं, **adjectives** के कई **uses** हैं जैसे यह **noun** की **quantity (how much)** और **quality (how well)** बताते हैं और उनमें **compare** (तुलना) करने में भी सहायक है।

अब इसके भेदों के बारे में जानते हियँ और देखते हैं कि किस तरह उनका सही जगह पर प्रयोग किया जाए। साथ ही जानेंगे कि कहाँ हम गलती करते हैं और कैसे उन्हें दूर करें -

Adjective किसी **noun** की विशेषता किस प्रकार बता रहा है, इसके आधार पर **adjective** को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है -

1. Adjective of Quality
2. Adjective of Quantity
3. Adjective of Number
4. Adjective of Comparison
5. Demonstrative Adjective
6. Interrogative Adjective

1) **Adjective of Quality (गुणवाचक विशेषण)**

Noun के गुण या प्रकार को प्रकट करने वाले शब्द को **adjective of quality** या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे =

New Delhi is a polluted city. (New Delhi किस प्रकार का शहर है - polluted)

He is an honest man. (वह कैसा आदमी है? - honest)

Adjective of quality "of what kind (किस प्रकार की)" या "कैसा" प्रश्न के उत्तर में आता है।

2) **Adjective of Quantity (परिमाणवाचक विशेषण)**

ऐसे शब्द जो संज्ञा के मात्रा के बारे में जानकारी दे, उसे **Adjective of Quantity** कहते हैं। इस तरह के शब्द समान्यतः "how much?" (कितने) का answer देते हैं। (**Adjective of Quantity expresses an approximate amount rather than the exact number.**)

Adjective of quantity का उपयोग "कितने" प्रश्न के उस उत्तर में होता है जहाँ गिनती नहीं की जा सकती। जैसे -

I can't believe I ate that whole cake! (मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने पूरा केक खाया!)

(How much cake - whole)

I took some notebooks. (मैंने कुछ नोटबुक्स ली।)

(How many notebooks - some)

We spent a few rupees for watching cinema. (हमने कुछ रुपये सिनेमा देखने में खर्च किये।)

(How many rupees - few)

Little knowledge is dangerous. (थोड़ा ज्ञान खतरनाक है। how much knowledge - Little)

There was no milk in the jug. (जग में दूध नहीं था। how much milk - no)

दिए गए वाक्यों में **whole, some, few, Little** और **no** ये सभी शब्द **How much** का **answer** दे रहे हैं, साथ ही साथ **nouns** की मात्रा भी बता रहे हैं। इसलिए ये सभी **words Quantitive adjective** है। इन शब्दों से कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। इसलिए ये **How much** का उत्तर देते हैं।

3) Adjective of Number (संख्यावाचक विशेषण)

Adjective of number का उपयोग "How many" (कितने) प्रश्न के उस उत्तर में होता है, जहाँ गिनती की जा सकती है। यह बताता है कि कितने व्यक्तियों या वस्तुओं से हमारा अभिप्राय है या व्यक्ति या वस्तु किस क्रम में हैं। संख्या की जानकारी देने वाले इस विशेषण को **Adjective of Number** भी कहते हैं। (**Adjective of Number depicts the number of nouns or their position or place in a certain order.**)

There are ten students in the classroom. (कक्षा में 10 विद्यार्थी है।)

I stood first in class. (मैं कक्षा में प्रथम आया।)

Saturday is the last day of the week. (शनिवार सप्ताह का आखिरी दिन है।)

दिए गए वाक्यों में **ten, first** और **last** या तो संज्ञा की मात्रा बता रहे हैं या फिर उनका क्रम। ये सभी शब्द **How many** का **answer** देते हैं और गणनीय संज्ञा से पहले प्रयोग किये गए हैं। इसलिए ये सभी **Adjective of Number** हैं।

4) Adjective of Comparison (तुलनावाचक विशेषण)

इसके बारे में **lesson** में सबसे **last** में सीखेंगे

5) Demonstrative Adjective (संकेतवाचक विशेषण)

Demonstrative adjective वो विशेषण है जो **nouns** के विषय में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। **Demonstrative adjective** का उपयोग "कौनसे" प्रश्न के उत्तर में होता है।

(Demonstrative adjectives are words that modify nouns and identify a specific noun or nouns.

Demonstrative adjectives answer the question: Which one?)

जैसे...

What is the name of this place? (इस जगह का क्या नाम है?)

These mangoes are sour. (ये आम खट्टे हैं।)

Demonstrative Adjectives इस प्रकार हैं :

this

that

these

those

This/That का प्रयोग **Singular (एकवचन) Nouns** के साथ होता है। “**This**” का प्रयोग पास की वस्तुओं और

“**That**” का प्रयोग दूर की वस्तुओं और व्यक्तियों को बताने के लिए होता है जैसे

This is my favourite coat. (इस वाक्य में वक्ता अपने पास के कोट के बारे में बात कर रहा है।)

That is my favourite coat. (इस वाक्य में बहुत से कोट के बीच में से एक **particular** कोट को बताया जा रहा है जो दूर है।)

These/Those का प्रयोग **Plural (बहुवचन) Nouns** के साथ होता है। **These** पास की और **Those** दूर की चीज़ों को बताता है।

These cookies are delicious.

Those mountains are beautiful.

6) Interrogative Adjective - सोचा है कि अगर आप अपनी बातचीत में प्रश्न ना पूछें या आपसे कोई प्रश्न ना पूछें जाएं तो बातचीत कैसी होगी? बिलकुल नीरस। जब तक हम एक दूसरे से प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक हमें किसी भी बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। हिंदी में हम प्रश्न पूछने के लिए क्या, क्यों, कैसे, कब जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी प्रश्न पूछने के लिए **words** होते हैं जिन्हें आप **wh- words** के नाम से जानते हैं। पर ये भी एक तरह के **adjectives** है। जो **adjective** प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें **Interrogative adjective** कहते हैं।

What time is it now ? (अब क्या समय हुआ है ?)

Which books is yours ?(आपकी कौनसी किताब है ?)

Whose pen is this ?(यह कलम किसका है?)

आपने इन्हें **Pronoun** में भी पढ़ा था। तो अब **question** है कि कैसे **exam** में कैसे पहचानेंगे कि याद रहे कि **What, Which** और **Whose** का प्रयोग एक **pronoun** की तरह हुआ है या **adjective** की तरह।

एक बहुत ही **simple** सा **rule** है -

जब **What, Which** और **Whose** के बाद कोई **Noun** आए, तो यह शब्द **Interrogative Adjectives** होंगे। परन्तु अगर उनके बाद **Verb** आए तो ये शब्द **Interrogative Pronoun** माने जाएंगे।

इसके **examples** आप मुझे बताएँगे और मैं बताऊँगी कि वे सही है या नहीं।

[An interrogative adjective asks a question and describes a noun

An interrogative pronoun asks a question, but stands alone (ie, does not describe a noun).

जैसे

"Which color looks better?"

यहाँ "**which**" is an **interrogative adjective**, as it is describing the noun "color".

What should I buy you for Christmas?

Here, "what" is an interrogative pronoun as it is asking a question, but is NOT modifying a noun; it stands alone.]

4) Adjective of Comparison (तुलनावाचक विशेषण)

अब हम **Adjective of Comparison** (तुलनावाचक विशेषण) के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा **topic** है जिसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। तुलना करने के तीन स्तर होते हैं। आसान भाषा में **adjective of comparison** तीन प्रकार के होता है -

Positive degree - किसी एक व्यक्ति या वस्तु का गुण या विशेषता बताता है। जैसे -

Radha is intelligent and wise.

India is a big country.

इन वाक्यों में केवल एक ही **noun** के बारे में बात की गयी है इसलिए इसमें **adjective** की साधारण **form** का प्रयोग किया गया है।

Comparative degree - जब किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करनी हो। **Comparative form** के अंत में [**er**] लगाते हैं।

Hari is older than Ravi.

The Kashmir valley is more beautiful than Himachal.

यहाँ दो व्यक्तियों या दो जगहों के बीच तुलना की जा रही है। ध्यान रहे तुलना करने के लिए हम वाक्य में **than** का प्रयोग करते हैं।

Superlative degree - जब बहुत लोगों, स्थानों या वस्तुओं में से किसी एक की विशेषता बतानी Superlative degree का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करने के किया जाता है, जैसे...

Mount Everest is the highest peak in the world.

Sunanda is the most intelligent student in her class.

दिए गए वाक्यों में एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दो से अधिक चीज़ों से हो रही हैं। इसमें **adjective** के आगे **est** एक और पहले **the** का प्रयोग करते हैं।

अब जानते हैं इससे सम्बन्धित होने वाली गलतियाँ -

1) **Comparative degree** में या तो शब्द के आगे **er** लगता है (**smarter**) या शब्द के आगे **more** शब्द (**more beautiful**) का प्रयोग होते हैं। ये दोनों ही चीज़े एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए **more beautifuller** कहना बिल्कुल ही गलत है।

2) **Comparative degree** में **than** का प्रयोग होता है **then** का नहीं।

3) इसी तरह **superlative degree** में या तो फिर **est** लगेगा या **most** .

4) **Superlative degree** में **the** का प्रयोग होता है।

कुछ words जानें -

POSITIVE DEGREE → COMPARATIVE DEGREE → SUPERLATIVE DEGREE

Good -	better -	best
Old -	older -	oldest
Tall -	taller -	tallest
Beautiful -	more beautiful -	most beautiful
Intelligent -	more intelligent -	most intelligent

Formation of Adjectives

बहुत से विशेषण बनते हैं संज्ञा, क्रिया या अन्य विशेषण से बनते हैं। उनके आगे **suffix** का प्रयोग कर **adjectives**

बनाये जा सकते हैं जैसे -

Adjective from Noun

boy boyish

dirt dirty

hope hopeful

gold golden

courage courageous

sense senseless

sensitive

trouble troublesome

Adjective from Verb

tired tireless

talk talkative

move movable

Adjective from another adjective

tragic tragical

black blackish

sick sickly

इस **lesson** के बाद अब आप किसी भी **exam** में सरलता से **adjective** का पता कागा सकते हैं। बोलते समय कहाँ और कैसे **positive degree**, **comparative degree** और **superlative degree** का प्रयोग करेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। साथ ही साथ अन्य शब्दों से **adjectives** बनाना भी आपने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आज की **class** आपके लिए **useful** रही होगी।

हमारी **next class** भी एक **important topic** से जुड़ी हुई है तो मिलते हैं **next class** में। जब तक आप **adjectives** की **practice** करें